



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246880
CG-DL-E-30062023-246880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]
No. 376]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

सा.का.नि. 465(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दमन और दीव प्रशासन शासकीय महाविद्यालय, समूह 'क' राजपत्रित, प्राचार्य पद भर्ती नियम 2012 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के शासकीय महाविद्यालय, दमन में प्राचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, शासकीय महाविद्यालय, दमन, प्राचार्य भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और चेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: यह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1	2	3	4
प्राचार्य	1* (2023) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 14 रु.144200 रु.- 218200+ 3000 विशेष भत्ता)

चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
5	6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नतियाँ/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:	लागू नहीं होता	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 4 रु.37400-67000 सहित शैक्षणिक ग्रेड पे (एजीपी) रु.9000 में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 13 ए (रु.131400 - 217100) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो:-</p> <p>आवश्यक:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (या जहाँ कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहाँ बिन्दु मापमान में कोई समतुल्य श्रेणी);</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पी.एच.डी. डिग्री;</p> <p>(iii) समकक्ष समीक्षा में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जनरलों में कम से कम दस शोध का प्रकाशन;</p> <p>अनुभव:-</p> <p>विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में अध्यापन/शोध का पंद्रह वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: यदि कोई श्रेणी या वर्गीकरण नहीं किया जाना है तो न्यूनतम साठ प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी या वर्गीकरण के समतुल्य माना जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया जाता है, तो आकलित ग्रेड पॉइंट औसत को नीचे दिये गए समतुल्य अंकों में परिवर्तित किया जाएगा:</p> <p>अंकों का ग्रेड पॉइंट समतुल्य प्रतिशत</p> <p>6.25 55</p> <p>6.75 60</p> <p>7.25 65</p> <p>7.75 70</p> <p>8.25 75</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार गठित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारण करने के आधार पर पांच वर्ष की अन्य अवधि के लिए विस्तारणीय होगा।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

GS.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Administration of Daman and Diu, Government College, Group ‘A’ Gazetted post of Principal, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal, Government College, Daman in the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Principal, Government College, Daman Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in pay matrix.-The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc..- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt, any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Principal.	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-ministerial.	Level 14 in pay matrix (Rs.144200-Rs.218200) plus special allowance of Rs. 3000/-.

Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable	Not Applicable.	Deputation (including Short-Term Contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including Short-Term Contract):</p> <p>Officers under Central Government or State Government or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Research Institutes or Autonomous bodies or Statutory Organisation:</p> <p>(A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band 4 Rs. 37400-67000 with Academic Grade Pay (AGP) of Rs. 9000/- or in Level-13A in pay matrix (Rs.131400-Rs.217100) or equivalent in the Parent cadre or Department; and</p> <p>(B) Possessing the following Educational qualifications and Experience: -</p> <p>ESSENTIAL:-</p> <p>(i) Master's degree with at least fifty-five per cent. of marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Ph.D. degree from a recognised University or Institute;</p> <p>(iii) A minimum of ten research publications in peer reviewed or University Grants Commission listed journals;</p> <p>Experience: -</p> <p>Fifteen years' experience in teaching/research in Universities/ Colleges/ Other Institutions of higher education.</p> <p>Note 1: If a class or division is not awarded, a minimum of sixty per cent. marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade point system is adopted, the Cumulative Grade Point Average will be converted to equivalent marks as below: Grade Point Equivalent percentage of marks</p> <p>6.25 55 6.75 60 7.25 65 7.75 70 8.25 75</p> <p>Note 2: The period of deputation (including Short-term Contract) including period of deputation (including Short- term Contract) in</p>	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

<p>another ex-cadre post held immediately, preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall be for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a Committee appointed by the University, constituted as per University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2018.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. 15-40/2016-UT. 1]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.